

# ॥ कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे भजन ॥

Chalisamantras.com

कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे,  
लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे,  
कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी,  
उन्ही के चरण चित लगाया करेंगे ।  
कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे,  
लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे ।

बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर,  
वही उनको झूला झुलाया करेंगे ।  
कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे..

उन्हें हम बिठाएंगे आँखों में दिल में,  
उन्ही से सदा लौ लगाया करेंगे ।  
कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे..

जो रुठेंगे हमसे वो बांके बिहारी,  
चरण को पकड़ हम मनाया करेंगे ।  
कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे..

उन्हें प्रेम डोर से हम बाँध लेंगे,  
तो फिर वो कहा भाग जाया करेंगे ।  
कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे..

उन्होंने छुड़ाये थे गज के वो बंधन,  
वही मेरे संकट मिटाया करेंगे ।  
कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे..

उन्होंने नचाया था ब्रह्माण्ड सारा,  
मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे ।  
कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे..

भर्जेंगे जहा प्रेम से नन्द नंदन,  
कन्हैया छवि को दिखाया करेंगे ।

कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे,  
लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे,  
कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी,  
उन्ही के चरण चित लगाया करेंगे ।

कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे,  
लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे ।

[Chalisamantras.com](http://Chalisamantras.com)

Chalisamantras.com